

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 637]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 13 दिसम्बर 2018-अग्रहायण 22, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. 81-वि. निर्वा.-चार-2018-241.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 308-म.प्र.-वि.स.-2018, दिनांक 13 दिसम्बर 2018 एवं उसका अंग्रेजी रूपांतर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

व्ही.एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 13 दिसम्बर, 2018-22 अग्रहायण, 1940 (शक)

अधिसूचना

संख्या 308-म.प्र.-वि.स.-2018.- यतः, मध्यप्रदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या 15-वि.निर्वा.-चार-2018, तारीख 2 नवम्बर, 2018 के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य के लिए नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन हेतु साधारण निर्वाचन करा लिया गया है, और

यतः, उक्त साधारण निर्वाचन के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के परिणाम संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा घोषित कर दिए गए हैं,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा उन निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित, यदि कोई हो, जैसा कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अधिसूचित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)

प्रधान सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 308/म.प्र.-वि.स./2018

तारीख 13 दिसम्बर, 2018 के संलग्न

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
1-श्यापुर	बाबू जन्डेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
2-विजयपुर	सीताराम	भारतीय जनता पार्टी
3-सबलगढ़	बैजनाथ कुशवाह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
4-जौरा	बनवारी लाल शर्मा (जापथाप)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
5-सुमावली	एदलसिंह कंधाना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
6-मुरैना	रघुराज सिंह कंधाना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
7-दिमनी	गिराज डण्डैतिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
8-अम्बाह (अ.जा.)	कमलेश जाटव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
9-अटेर	अरविंद सिंह भदौरिया	भारतीय जनता पार्टी
10-भिण्ड	संजीव सिंह "संजू"	बहुजन समाज पार्टी
11-लहार	डॉ. गोविन्द सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
12-मेहगाँव	ओ.पी.एस. भदौरिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
13-गोहद (अ.जा.)	रणवीर जाटव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
14-ग्वालियर ग्रामीण	भारत सिंह कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
15-ग्वालियर	प्रधुम्न सिंह तोमर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
16-ग्वालियर पूर्व	मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
17-ग्वालियर दक्षिण	प्रवीण पाठक	इंडियन नेशनल काँग्रेस
18-भितरवार	लाखन सिंह यादव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
19-डबरा (अ.जा.)	इमरती देवी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
20-सेवड़ा	घनश्याम सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
21-भाण्डेर (अ.जा.)	रक्षा संतराम सरौनिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
22-दतिया	डॉ. नरोत्तम मिश्र	भारतीय जनता पार्टी
23-करेरा (अ.जा.)	जसमंत जाटव छितरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
24-पोहरी	सुरेश धाकड़ (राठखेड़ा)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
25-शिवपुरी	यशोधरा राजे सिंधिया	भारतीय जनता पार्टी
26-पिछोर	के.पी. सिंह कक्काजू	इंडियन नेशनल काँग्रेस
27-कोलारस	बीरेन्द्र रघुवंशी	भारतीय जनता पार्टी
28-बामोरी	महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
29-गुना (अ.जा.)	गोपीलाल जाटव	भारतीय जनता पार्टी
30-चाचौड़ा	लक्ष्मण सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
31-राघोगढ़	जयवर्द्धन सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
32-अशोकनगर (अ.जा.)	जजपाल सिंह "जज्जी"	इंडियन नेशनल काँग्रेस

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
33-चंदेरी	गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
34-मुंगावली	ब्रजेन्द्र सिंह यादव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
35-बीना (अ.जा.)	महेश राय	भारतीय जनता पार्टी
36-खुरई	भूपेन्द्र भैया	भारतीय जनता पार्टी
37-सुरखी	गोविन्द सिंह राजपूत	इंडियन नेशनल काँग्रेस
38-देवरी	हर्ष यादव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
39-रहली	गोपाल भार्गव	भारतीय जनता पार्टी
40-नरयावली (अ.जा.)	इंजी. प्रदीप लारिया	भारतीय जनता पार्टी
41-सागर	शैलेन्द्र जैन	भारतीय जनता पार्टी
42-बण्डा	तरबर सिंह (बंटू भैया)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
43-टीकमगढ़	राकेश गिरि	भारतीय जनता पार्टी
44-जतारा (अ.जा.)	खटीक हरिशंकर	भारतीय जनता पार्टी
45-पृथ्वीपुर	ब्रजेन्द्र सिंह राठौर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
46-निवाडी	अनिल जैन	भारतीय जनता पार्टी
47-खरगापुर	राहुल सिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
48-महाराजपुर	नीरज विनोद दीक्षित	इंडियन नेशनल काँग्रेस
49-चांदला (अ.जा.)	राजेश कुमार प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
50-राजनगर	विक्रम सिंह (नाती राजा)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
51-छतरपुर	आलोक चतुर्वेदी (पज्जन भैया)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
52-बिजावर	राजेश शुक्ला (बब्लु भैया)	समाजवादी पार्टी
53-मलहरा	कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी (मुन्ना भैया)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
54-पथरिया	रामबाई गोविंद सिंह	बहुजन समाज पार्टी
55-दमोह	राहुल सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
56-जबेरा	धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी	भारतीय जनता पार्टी
57-हटा (अ.जा.)	पुरुषोत्तम/रामकली तंतुवाय हटा	भारतीय जनता पार्टी
58-पवई	प्रहलाद लोधी	भारतीय जनता पार्टी
59-गुन्नौर (अ.जा.)	शिवदयाल बागरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
60-पन्ना	ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
61-चित्रकूट	नीलांशु चतुर्वेदी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
62-रैगाँव (अ.जा.)	जुगुल किशोर बागरी	भारतीय जनता पार्टी
63-सतना	डब्लू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
64-नागौद	नागेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
65-मैहर	नारायण त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
66-अमरपाटन	रामखेलावन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
67-रामपुर-बघेलान	विक्रम सिंह (विवकी)	भारतीय जनता पार्टी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
68-सिरमौर	दिव्यराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
69-सेमरिया	के. पी. त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी
70-त्यौथर	श्याम लाल द्विवेदी	भारतीय जनता पार्टी
71-मऊगंज	प्रदीप पटेल	भारतीय जनता पार्टी
72-देवतालाब	गिरीश गौतम	भारतीय जनता पार्टी
73-मनगवाँ (अ.जा.)	पंचूलाल प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी
74-रीवा	राजेन्द्र शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
75-गुढ़	नागेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
76-चुरहट	शरदेन्दु तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
77-सीधी	केदार नाथ शुक्ल	भारतीय जनता पार्टी
78-सिहावल	कमलेश्वर इन्द्रजीत कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
79-चितरंगी (अ.ज.जा.)	अमर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
80-सिंगरौली	रामलल्लू वैश्य	भारतीय जनता पार्टी
81-देवसर (अ.जा.)	सुभाष रामचरित्र	भारतीय जनता पार्टी
82-धौहानी (अ.ज.जा.)	कुँवर सिंह टेकाम	भारतीय जनता पार्टी
83-ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	कौल शरद जुगलाल	भारतीय जनता पार्टी
84-जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	जयसिंह मरावी	भारतीय जनता पार्टी
85-जैतपुर (अ.ज.जा.)	मनीषा सिंह	भारतीय जनता पार्टी
86-कोतमा	सुनील सराफ	इंडियन नेशनल काँग्रेस
87-अनूपपुर (अ.ज.जा.)	बिसाहूलाल सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
88-पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	फुन्देलाल सिंह मार्को	इंडियन नेशनल काँग्रेस
89-बाघवगढ़ (अ.ज.जा.)	शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
90-मानपुर (अ.ज.जा.)	मीना सिंह	भारतीय जनता पार्टी
91-बड़वारा (अ.ज.जा.)	विजयराघवेन्द्र सिंह (बसंत सिंह)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
92-विजयराघवगढ़	संजय सत्येन्द्र पाठक	भारतीय जनता पार्टी
93-मुड़वारा	संदीप श्री प्रसाद जायसवाल	भारतीय जनता पार्टी
94-बहोरीबंद	प्रणय प्रभात पांडे (गुड्डू भैया)	भारतीय जनता पार्टी
95-पाटन	अजय विश्णोई	भारतीय जनता पार्टी
96-बरगी	संजय यादव "सिवनी टोला"	इंडियन नेशनल काँग्रेस
97-जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	लखन घनघोरिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
98-जबलपुर उत्तर	विनय सक्सेना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
99-जबलपुर केंद्र	अशोक ईश्वरदास रोहाणी	भारतीय जनता पार्टी
100-जबलपुर पश्चिम	तरुण भनोत	इंडियन नेशनल काँग्रेस
101-पनागर	सुशील कुमार तिवारी (इन्दु भैया)	भारतीय जनता पार्टी
102-सिहोरा (अ.ज.जा.)	नंदनी मरावी	भारतीय जनता पार्टी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
103-शहपुरा (अ.ज.जा.)	भूपेन्द्र मरावी (बबलू)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
104-डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	ओमकार सिंह मरकाम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
105-बिछिया (अ.ज.जा.)	नारायण सिंह पट्टा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
106-निवास (अ.ज.जा.)	डॉ. अशोक मर्सकोले	इंडियन नेशनल काँग्रेस
107-मण्डला (अ.ज.जा.)	देवसिंह सैयाम	भारतीय जनता पार्टी
108-बैहर (अ.ज.जा.)	संजय उइके	इंडियन नेशनल काँग्रेस
109-लांजी	हिना लिखीराम कावरे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
110-परसवाड़ा	रामकिशोर (नानो) कावरे	भारतीय जनता पार्टी
111-बालाघाट	गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन	भारतीय जनता पार्टी
112-वारासिवनी	प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा)	निर्दलीय
113-कटगी	टामलाल रघुजी सहारे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
114-बरघाट (अ.ज.जा.)	अर्जुन सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
115-सिवनी	दिनेश राय मुनमुन	भारतीय जनता पार्टी
116-केवलारी	राकेश पाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
117-लखनादौन (अ.ज.जा.)	योगेन्द्र सिंह "बाबा"	इंडियन नेशनल काँग्रेस
118-गोटेगांव (अ.जा.)	नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
119-नरसिंहपुर	जालम सिंह पटेल "मुन्ना भैया"	भारतीय जनता पार्टी
120-तेंदूखेड़ा	संजय शर्मा "संजू भैया"	इंडियन नेशनल काँग्रेस
121-गाडरवारा	सुनीता पटेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
122-जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	सुनील उइके	इंडियन नेशनल काँग्रेस
123-अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	कमलेश प्रताप शाह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
124-चौरई	चौधरी सुजीत मेर सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
125-सौंसर	विजय रेवनाथ चोरे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
126-छिंदवाड़ा	दीपक सक्सेना	इंडियन नेशनल काँग्रेस
127-परासिया (अ.जा.)	सोहनलाल बाल्मीक	इंडियन नेशनल काँग्रेस
128-पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	निलेश पुसाराम उइके	इंडियन नेशनल काँग्रेस
129-मुलताई	सुखदेव पांसे	इंडियन नेशनल काँग्रेस
130-आमला (अ.जा.)	डॉ. योगेश पंडाग्रे	भारतीय जनता पार्टी
131-बैतूल	निलय विनोद डागा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
132-घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	ब्रम्हा भलावी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
133-भैसदेही (अ.ज.जा.)	धरमूसिंग सिरसाम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
134-टिमरनी (अ.ज.जा.)	संजय शाह "मकड़ाई"	भारतीय जनता पार्टी
135-हरदा	कमल पटेल	भारतीय जनता पार्टी
136-सिवनी-मालवा	प्रेमशंकर कुजीलाल वर्मा (बघवाड़ा)	भारतीय जनता पार्टी
137-होशंगाबाद	डॉ. सीतासरण शर्मा	भारतीय जनता पार्टी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
138-सोहागपुर	विजयपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
139-पिपरिया (अ.जा.)	ठाकुरदास नागवंशी	भारतीय जनता पार्टी
140-उदयपुरा	देवेन्द्रसिंह पटेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
141-भोजपुर	सुरेन्द्र पटवा	भारतीय जनता पार्टी
142-सांची (अ.जा.)	डॉ. प्रभुराम चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
143-सिलवानी	रामपाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
144-विदिशा	शशांक श्रीकृष्ण भार्गव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
145-बासौदा	लीना संजय जैन "टप्पू"	भारतीय जनता पार्टी
146-कुरवाई (अ.जा.)	हरि सिंह सप्रे	भारतीय जनता पार्टी
147-सिरोंज	उमाकांत शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
148-शमशाबाद	राजश्री रूद्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
149-बैरसिया (अ.जा.)	विष्णु खत्री	भारतीय जनता पार्टी
150-भोपाल उत्तर	आरिफ अकील	इंडियन नेशनल काँग्रेस
151-नरेला	विश्वास सारंग	भारतीय जनता पार्टी
152-भोपाल दक्षिण-पश्चिम	पी.सी. शर्मा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
153-भोपाल मध्य	आरिफ मसूद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
154-गोविन्दपुरा	कृष्णा गौर	भारतीय जनता पार्टी
155-हुजूर	रामेश्वर शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
156-बुधनी	शिवराज सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
157-आष्टा (अ.जा.)	रघुनाथसिंह मालवीय	भारतीय जनता पार्टी
158-इछावर	करण सिंह वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
159-सीहोर	सुदेश राय	भारतीय जनता पार्टी
160-नरसिंहगढ़	राजवर्धन सिंह	भारतीय जनता पार्टी
161-ब्यावरा	गोवर्धन दाँगी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
162-राजगढ़	बापूसिंह तंवर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
163-खिलचीपुर	प्रियव्रत सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
164-सारंगपुर (अ.जा.)	कुंवरजी कोठार	भारतीय जनता पार्टी
165-सुसनेर	विक्रम सिंह राणा गुड्डु भैया	निर्दलीय
166-आगर (अ.जा.)	मनोहर ऊटवाल	भारतीय जनता पार्टी
167-शाजापुर	कराड़ा हुकुमसिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
168-शुजालपुर	इन्दर सिंह परमार	भारतीय जनता पार्टी
169-कालापपीपल	कुणाल चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
170-सोनकच्छ (अ.जा.)	सज्जनसिंह वर्मा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
171-देवास	गायत्री राजे पवार	भारतीय जनता पार्टी
172-हाटपिपल्या	मनोज नारायण सिंह चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
173-खातेगांव	आशीष गोविन्द शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
174-बागली (अ.ज.जा.)	कन्नौजे पहाड़सिंह	भारतीय जनता पार्टी
175-मांघाता	नारायण पटेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
176-हरसूद (अ.ज.जा.)	कुंवर विजय शाह	भारतीय जनता पार्टी
177-खण्डवा (अ.जा.)	देवेन्द्र वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
178-पंधाना (अ.ज.जा.)	राम दांगोरे	भारतीय जनता पार्टी
179-नेपानगर (अ.ज.जा.)	सुमित्रा देवी कारुडेकर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
180-बुरहानपुर	ठा. सुरेन्द्रसिंह नवलसिंह "शेरा भैया"	निर्दलीय
181-भीकनगांव (अ.ज.जा.)	झूमा डॉ ध्यानसिंह सोलंकी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
182-बड़वाहा	सचिन बिरला	इंडियन नेशनल काँग्रेस
183-महेश्वर (अ.जा.)	डॉ. विजयलक्ष्मी साधू	इंडियन नेशनल काँग्रेस
184-कसरावद	सचिन सुभाषचंद्र यादव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
185-खरगौन	रवि रमेशचन्द्र जोशी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
186-भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	केदार चिडाभाई डावर	निर्दलीय
187-सैंधवा (अ.ज.जा.)	ग्यारसीलाल रावत	इंडियन नेशनल काँग्रेस
188-राजपुर (अ.ज.जा.)	बाला बच्चन	इंडियन नेशनल काँग्रेस
189-पानसेमल (अ.ज.जा.)	चन्द्रभागा किराड़े	इंडियन नेशनल काँग्रेस
190-बड़वानी (अ.ज.जा.)	प्रेमसिंह पटेल	भारतीय जनता पार्टी
191-अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	मुकेश रावत (पटेल)	इंडियन नेशनल काँग्रेस
192-जोबट (अ.ज.जा.)	कलावती भूरिया	इंडियन नेशनल काँग्रेस
193-झाबुआ (अ.ज.जा.)	गुमानसिंह डामोर	भारतीय जनता पार्टी
194-थांदला (अ.ज.जा.)	भूरिया वीरसिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
195-पेटलावद (अ.ज.जा.)	मैड़ा वाल सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
196-सरदारपुर (अ.ज.जा.)	प्रताप ग्रेवाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
197-गंधवानी (अ.ज.जा.)	उमंग सिंघार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
198-कुक्षी (अ.ज.जा.)	सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
199-मनावर (अ.ज.जा.)	डॉ. हिरालाल अलावा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
200-धरमपुरी (अ.ज.जा.)	पंचीलाल मेड़ा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
201-धार	नीना विक्रम वर्मा	भारतीय जनता पार्टी
202-बदनावर	राजवर्धनसिंह-प्रेमसिंह दत्तीगांव	इंडियन नेशनल काँग्रेस
203-देपालपुर	विशाल जगदीश पटेल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
204-इन्दौर-1	संजय शुक्ला	इंडियन नेशनल काँग्रेस
205-इन्दौर-2	रमेश मेन्दोला	भारतीय जनता पार्टी
206- इन्दौर-3	आकाश कैलाश विजयवर्गीय	भारतीय जनता पार्टी
207- इन्दौर-4	मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़	भारतीय जनता पार्टी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम (सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)	सम्बद्ध दल का नाम (यदि कोई हो)
1	2	3
208- इन्दौर-5	महेन्द्र हार्डिया	भारतीय जनता पार्टी
209-डॉ. अम्बेडकरनगर-महू	उषा ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
210-राउ	जितु पटवारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
211-सांवेर (अ.जा.)	तुलसीराम सिलावट	इंडियन नेशनल काँग्रेस
212-नागदा-खाचरोद	दिलीप गुर्जर	इंडियन नेशनल काँग्रेस
213-महिदपुर	बहादुरसिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
214-तराना (अ.जा.)	महेश परमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
215-घटिया (अ.जा.)	रामलाल मालवीय	इंडियन नेशनल काँग्रेस
216-उज्जैन उत्तर	पारस जैन	भारतीय जनता पार्टी
217-उज्जैन दक्षिण	डॉ. मोहन यादव	भारतीय जनता पार्टी
218-बड़नगर	मुरली मोरवाल	इंडियन नेशनल काँग्रेस
219-रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.)	दिलीप कुमार मकवाना	भारतीय जनता पार्टी
220-रतलाम सिटी	चेतन्य काश्यप	भारतीय जनता पार्टी
221-सैलाना (अ.ज.जा.)	हर्ष विजय गेहलोत "गुड्डू"	इंडियन नेशनल काँग्रेस
222-जावरा	राजेन्द्र पाण्डेय "राजू भैया"	भारतीय जनता पार्टी
223-आलोट (अ.जा.)	मनोज चावला	इंडियन नेशनल काँग्रेस
224-मंदसौर	यशपाल सिंह सिसौदिया	भारतीय जनता पार्टी
225-मल्हारगढ़ (अ.जा.)	जगदीश देवडा	भारतीय जनता पार्टी
226-सुवासरा	डंग हरदीपसिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
227-गरोठ	देवीलाल धाकड़ (एडव्होकेट)	भारतीय जनता पार्टी
228-मनासा	अनिरुद्ध (माधव) मारु	भारतीय जनता पार्टी
229-नीमच	दिलीप सिंह परिहार	भारतीय जनता पार्टी
230-जावद	ओम प्रकाश सखलेचा	भारतीय जनता पार्टी

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110 001

No. 308/MP-LA/2018

New Delhi, Date: **13th December, 2018**
22 Agrahayana, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

Whereas, in pursuance of the Notification No. 15-vi.Nirva.-IV-2018 dated 2nd November, 2018 issued by the Governor of the State of Madhya Pradesh under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the State of Madhya Pradesh; and

Whereas, the results of the elections in all the Assembly Constituencies in the said General Election have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby notifies the names of the members elected for those Constituencies, alongwith their party affiliation, if any, in the schedule to this Notification.

By Order,
Sd/-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.

SCHEDULE TO NOTIFICATION NO. 308/MP-LA/2018 DATED 13.12.2018 OF ELECTION
COMMISSION OF INDIA

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY	NAME OF ELECTED MEMBER (SHRI / SMT. KU.)	PARTY AFFILIATION (IF ANY)
1-SHEOPUR	BABU JANDEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
2-VIJAYPUR	SEETARAM	BHARATIYA JANATA PARTY
3- SABALGARH	BAIJNATH KUSHWAH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
4-JOURA	BANAVAREELAL SHARMA (JAPTHAP)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
5- SUMAWALI	ADAL SINGH KANSANA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
6-MORENA	KAGHURAJ SINGH KANSANA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
7-DIMANI	GIRRAJ DANDOTIYA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
8-AMBAH (SC)	KAMLESH JATAV	INDIAN NATIONAL CONGRESS
9-ATER	ARVIND SINGH BHADORIA	BHARATIYA JANATA PARTY
10-BHIND	SANJEEV SINGH (SANJU)	BAHUJAN SAMAJ PARTY
11-LAHAR	DR. GOVIND SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
12-MEHGAON	O.P.S. BHADORIA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
13-GOHAD (SC)	RANVIR JATAV	INDIAN NATIONAL CONGRESS
14-GWALIOR RURAL	BHARAT SINGH KUSHWAH	BHARATIYA JANATA PARTY
15-GWALIOR	PRADHUMAN SINGH TOMAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS
16-GWALIOR EAST	MUNNALAL GOYAL (MUNNA BHAIYA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
17-GWALIOR SOUTH	PRAVEEN PATHAK	INDIAN NATIONAL CONGRESS
18-BHITARWAR	LAKHAN SINGH YADAV	INDIAN NATIONAL CONGRESS
19-DABRA (SC)	IMARTI DEVI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
20-SEWDA	GHANSHYAM SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
21-BHANDER (SC)	RAKSHA SANTRAM SARONIYA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
22-DATIA	DR. NAROTTAM MISHRA	BHARATIYA JANATA PARTY
23-KARERA (SC)	JASHMANT JATAV CHITREE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
24-POHARI	SURESH DHAKAD (RATIKHEDA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
25-SHIVPURI	YASHODHARA RAJE SCINDIA	BHARATIYA JANATA PARTY
26-PICHHORE	K.P. SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
27-KOLARAS	BIRENDRA RAGHUVANSHI	BHARATIYA JANATA PARTY
28-BAMORI	MAHENDRA SINGH SISODIYA (SANJU BHAIYA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
29-GUNA (SC)	GOPIAL JATAV	BHARATIYA JANATA PARTY
30-CHACHOURA	LAKSHMAN SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
31-RAGHOGARH	JAIWARDHAN SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
32-ASHOK NAGAR (SC)	JAJPAL SINGH "JAJJI"	INDIAN NATIONAL CONGRESS
33-CHANDERI	GOPAL SINGH CHAUHAN (DAGGI RAJA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
34-MUNGAOLI	BRAJENDRA SINGH YADAV	INDIAN NATIONAL CONGRESS
35-BINA (SC)	MAHESH RAI	BHARATIYA JANATA PARTY
36-KHURAI	BHUPENDRA BHAIYA	BHARATIYA JANATA PARTY
37-SURKHI	GOVIND SINGH RAJPUT	INDIAN NATIONAL CONGRESS
38-DEORI	HARSH YADAV	INDIAN NATIONAL CONGRESS

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY	NAME OF ELECTED MEMBER (SHRI / SMT. KU.)	PARTY AFFILIATION (IF ANY)
39-REHLI	GOPAL BHARGAVA	BHARATIYA JANATA PARTY
40-NARYOLI (SC)	ENG. PRADEEP LARIYA	BHARATIYA JANATA PARTY
41-SAGAR	SHAILENDRA JAIN	BHARATIYA JANATA PARTY
42-BANDA	TARBAR SINGH (BANTU BHAIYA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
43-TIKAMGARH	RAKESH GIRI	BHARATIYA JANATA PARTY
44-JATARA (SC)	KHATIK HARISHANKAR	BHARATIYA JANATA PARTY
45-PRITHVIPUR	BRAJENDRA SINGH RATHORE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
46-NIWARI	ANIL JAIN	BHARATIYA JANATA PARTY
47-KHARGAPUR	RAHUL SINGH LODHI	BHARATIYA JANATA PARTY
48-MAHARAJPUR	NEERAJ VINOD DIXIT	INDIAN NATIONAL CONGRESS
49-CHANDLA (SC)	RAJESH KUMAR PRAJAPATI	BHARATIYA JANATA PARTY
50-RAJNAGAR	VIKRAM SINGH (NATI RAJA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
51-CHHATARPUR	ALOK CHATURVEDI (PAJJAN BHAIYA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
52-BIJAWAR	RAJESH SHUKLA (BABLU BHAIYA)	SAMAJWADI PARTY
53-MALHARA	KUNWAR PRADYUMNA SINGH LODHI (MUNNA BHAIYA)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
54-PATHARIYA	RAMBAI GOVIND SINGH	BAHUKAN SAMAJ PARTY
55-DAMOH	RAHUL SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
56-JABERA	DHARMENDRA BHAV SINGH LODHI	BHARATIYA JANATA PARTY
57-HATTA (SC)	PURUSOTTAM/RAMKALI TANTUWAY HATTA	BHARATIYA JANATA PARTY
58-PAWAI	PRAHLAD LODHI	BHARATIYA JANATA PARTY
59-GUNNAOR (SC)	SHIVDAYAL BAGRI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
60-PANNA	BRIJENDRA PRATAP SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
61-CHITRAKOOT	NEELANSHU CHATURVEDI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
62-RAIGAON (SC)	JUGUL KISHOR BAGRI	BHARATIYA JANATA PARTY
63-SATNA	DABBU SIDDHARTH SUKHIAL. KUSHWAHA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
64-NAGOD	NAGENDRA SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
65-MAIHAR	NARAYAN TRIPATHI	BHARATIYA JANATA PARTY
66-AMARPATAN	RAMKHELAWAN PATEL	BHARATIYA JANATA PARTY
67-RAMPUR-BAGHELAN	VIKRAM SINGH (VIKKI)	BHARATIYA JANATA PARTY
68-SIRMOUR	DIVYARAJ SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
69-SEMARIYA	K. P. TRIPATHI	BHARATIYA JANATA PARTY
70-TEONTHAR	SHYAM LAL DWIVEDI	BHARATIYA JANATA PARTY
71-MAUGANJ	PRADEEP PATEL	BHARATIYA JANATA PARTY
72-DEOTALAB	GIRISH GAUTAM	BHARATIYA JANATA PARTY
73-MANGAWAN (SC)	PANCHU LAL PRAJAPATI	BHARATIYA JANATA PARTY
74-REWA	RAJENDRA SHUKLA	BHARATIYA JANATA PARTY
75-GURH	NAGENDRA SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
76-CHURHAT	SHARADENDU TIWARI	BHARATIYA JANATA PARTY
77-SIDHI	KEDAR NATH SHUKL	BHARATIYA JANATA PARTY
78-SIHAWAL	KAMALESHWAR INDRAJEET KUMAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY	NAME OF ELECTED MEMBER (SHRI / SMT. KU.)	PARTY AFFILIATION (IF ANY)
79-CHITRANGI (ST)	AMAR SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
80-SINGRAULI	RAMLALLU VAISHYA	BHARTIYA JANATA PARTY
81-DEVSAR (SC)	SUBHASH RAM CHARITRA	BHARATIYA JANATA PARTY
82-DHAUHANI (ST)	KUNWAR SINGH TEKAM	BHARATIYA JANATA PARTY
83-BEOHARI (ST)	KOL SARAD JUGLAL	BHARATIYA JANATA PARTY
84-JAISINGHNAGAR (ST)	JAISINGH MARAVI	BHARATIYA JANATA PARTY
85-JAITPUR (ST)	MANISHA SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
86-KOTMA	SUNEEL SARAF	INDIAN NATIONAL CONGRESS
87-ANUPPUR (ST)	BISAHULAL SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
88-PUSHIPRAJGARH (ST)	PHUNDELAL SINGH MARKO	INDIAN NATIONAL CONGRESS
89-BANDHAVGARH (ST)	SHIVNARAYAN SINGH (LALLU BHAIYA)	BHARATIYA JANATA PARTY
90-MANPUR (ST)	MEENA SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
91-BARWARA (ST)	VIJAYRAGHVENDRA SINGH (BASANT SINGH)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
92-VIJAYRAGHAVGARH	SANJAY SATYENDRA PATHAK	BHARATIYA JANATA PARTY
93-MURWARA	SANDIP SHREE PRASAD JAISWAL	BHARATIYA JANATA PARTY
94-BAHORIBAND	PRANAY PRABHAT PANDEY (GUDDU BHAIYA)	BHARATIYA JANATA PARTY
95-PATAN	AJAY VISHNOI	BHARATIYA JANATA PARTY
96-BARGI	SANJAY YADAV "SEONI TOLA"	INDIAN NATIONAL CONGRESS
97-JABALPUR PURBA (SC)	LAKHAN GHANGHORIYA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
98-JABALPUR UTTAR	VINAY SAXENA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
99-JABALPUR CANTT.	ASHOK ISHWARDAS ROHANI	BHARATIYA JANATA PARTY
100-JABALPUR PASCHIM	TARUN BHANOT	INDIAN NATIONAL CONGRESS
101-PANAGAR	SUSHEEL KUMAR TIWARI (INDU BHAIYA)	BHARATIYA JANATA PARTY
102-SIHORA (ST)	NANDANI MARAVI	BHARATIYA JANATA PARTY
103-SHAHPURA (ST)	BHOOPENDRA MARAVI (BABLU)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
104-DINDORI (ST)	OMKAR SINGH MARKAM	INDIAN NATIONAL CONGRESS
105-BICHHIYA (ST)	NARAYAN SINGH PATTI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
106-NIWAS (ST)	DR. ASHOK MARSKOLE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
107-MANDLA (ST)	DEOSINGH SAIYAM	BHARATIYA JANATA PARTY
108-BAIHAR (ST)	SANJAY UIKEY	INDIAN NATIONAL CONGRESS
109-LANJI	HINA LIKHIRAM KAWRE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
110-PARASWADA	RAMKISHOR (NANO KAWRE)	BHARATIYA JANATA PARTY
111-BALAGHAT	GAURISHANKER CHATURBHUI BISEN	BHARATIYA JANATA PARTY
112-WARASEONI	PRADEEP AMRATLAL JAISWAL (GUDDA)	INDEPENDENT
113-KATANGI	TAMLAL RAGHUJI SAHARE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
114-BARGHAT (ST)	ARJUN SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
115-SEONI	DINESH RAI MUNMUN	BHARATIYA JANATA PARTY
116-KEOLARI	RAKESH PAL SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
117-LAKHNADOX (ST)	YOGENDRA SINGH "BABA"	INDIAN NATIONAL CONGRESS
118-GOTEGAON (SC)	NARMADA PRASAD PRAJAPATI (N.P.)	INDIAN NATIONAL CONGRESS

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY	NAME OF ELECTED MEMBER (SHRI / SMT. KU.)	PARTY AFFILIATION (IF ANY)
119-NARSINGPUR	JALAM SINGH PATEL "MUNNA BHAIYA"	BHARATIYA JANATA PARTY
120-TENDUKHEDA	SANJAY SHARMA "SANJU BHAIYA"	INDIAN NATIONAL CONGRESS
121-GADARWARA	SUNEETA PATEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
122-JUNNARDEO (ST)	SUNIL UIKEY	INDIAN NATIONAL CONGRESS
123-AMARWARA (ST)	KAMLESH PRATAP SHAH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
124-CHURAI	CHOUDHARY SUJEET MER SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
125-SAUN SAR	VIJAY REVNATH CHORE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
126-CHHINDWARA	DEEPAK SAXENA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
127-PARASIA (SC)	SOHANLAL BALMIK	INDIAN NATIONAL CONGRESS
128-PANDHURNA (ST)	NILESH PUSARAM UIKEY	INDIAN NATIONAL CONGRESS
129-MULTAI	SUKHDEV PANSE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
130-AMLA (SC)	DR. YOGESH PANDAGRE	BHARATIYA JANATA PARTY
131-BETUL	NILAY VINOD DAGA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
132-GHORADONGRI (ST)	BRAMHA BHALAVI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
133-BHAINSEDEHI (ST)	DHARMU SINGH SIRSAM	INDIAN NATIONAL CONGRESS
134-TIMARNI (ST)	SANJAY SHAI "MAKRAI"	BHARATIYA JANATA PARTY
135-HARDA	KAMAL PATEL	BHARATIYA JANATA PARTY
136-SEONI MALWA	PREM SHANKER KUNJILAL VERMA (BAGHWADA)	BHARATIYA JANATA PARTY
137-HOSHANGABAD	DR. SITASARAN SHARMA	BHARATIYA JANATA PARTY
138-SOHAGPUR	VIJAYPAL SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
139-PIPARIYA (SC)	THIAKURDAS NAGWANSHI	BHARATIYA JANATA PARTY
140-UDAIPURA	DEVENDRA SINGH PATEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
141-BHOJPUR	SURENDRA PATWA	BHARATIYA JANATA PARTY
142-SANCHI (SC)	DR. PRABHURAM CHOUDHARY	INDIAN NATIONAL CONGRESS
143-SILWANI	RAMPAL SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
144-VIDISHA	SHASHANK SHRIKRISHAN BHARGAVA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
145-BASODA	LEENA SANJAY JAIN "TAPPU"	BHARATIYA JANATA PARTY
146-KURWAI (SC)	HARI SINGH SAPRE	BHARATIYA JANATA PARTY
147-SIRONJ	UMAKANT SHARMA	BHARATIYA JANATA PARTY
148-SHAMSHABAD	RAJSHRI-RUDRA PRATAP SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
149-BERASIA (SC)	VISHNU KHATRI	BHARATIYA JANATA PARTY
150-BHOPAL UTTAR	ARIF AQUEEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
151-NARELA	VISHVAS SARANG	BHARATIYA JANATA PARTY
152-BHOPAL DAKSHIN-PASHCHIM	P. C. SHARMA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
153-BHOPAL MADHYA	ARIF MASOOD	INDIAN NATIONAL CONGRESS
154-GOVINDPURA	KRISHNA GAUR	BHARATIYA JANATA PARTY
155-HUZUR	RAMESHWAR SHARMA	BHARATIYA JANATA PARTY
156-BUDHINI	SHIVRAJ SINGH CHOUHAN	BHARATIYA JANATA PARTY
157-ASHTA (SC)	RAGHUNATH SINGH MALVIYA	BHARATIYA JANATA PARTY
158-ICHHAWAR	KARAN SINGH VERMA	BHARATIYA JANATA PARTY

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY	NAME OF ELECTED MEMBER (SHRI / SMT. KU.)	PARTY AFFILIATION (IF ANY)
159-SEHORE	SUDESH RAI	BHARATIYA JANATA PARTY
160-NARSINGHGARH	RAJYAVARDHAN SINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
161-BIAORA	GOVARDHAN DANGI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
162-RAJGARH	BAPUSINGH TANWAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS
163-KHILCHIPUR	PRIYAVRAT SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
164-SARANGPUR (SC)	KUNWARJI KOTHAR	BHARATIYA JANATA PARTY
165-SUSNER	VIKARAM SINGH RANA GUDDU BHAI	INDEPENDENT
166-AGAR (SC)	MANOHAR UNTWAL	BHARATIYA JANATA PARTY
167-SHAJAPUR	KARADA HUKUMSINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
168-SHUJALPUR	INDER SINGH PARMAR	BHARATIYA JANATA PARTY
169-KALAPIPAL	KUNAL CHOUDHARY	INDIAN NATIONAL CONGRESS
170-SONKATCHI (SC)	SAJJAN SINGH VERMA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
171-DEWAS	GAYATRI RAJE PUAR	BHARATIYA JANATA PARTY
172-HATPIPLIYA	MANOJ NARAYAN SINGH CHOUDHARY	INDIAN NATIONAL CONGRESS
173-KHATEGAON	AASHISH GOVIND SHARMA	BHARATIYA JANATA PARTY
174-BAGALI (ST)	KANNOJE PAHADSINGH	BHARATIYA JANATA PARTY
175-MANDHATA	NARAYAN PATEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
176-HARSUD (ST)	KUNWAR VIJAY SHAH	BHARATIYA JANATA PARTY
177-KHANDWA (SC)	DEVENDRA VERMA	BHARATIYA JANATA PARTY
178-PANDHANA (ST)	RAM DANGORE	BHARATIYA JANATA PARTY
179-NEPANAGAR (ST)	SUMITRA DEVI KASDEKAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS
180-BURHANPUR	THAKUR SURENDRA SINGH NAVAL SINGH "SHERA BHAIYA"	INDEPENDENT
181-BHIKANGAON (ST)	JHUMA DR. DHYANSINGH SOLANKI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
182-BADWAH	SACHIN BIRLA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
183-MAHESHWAR (SC)	DR. VIJAYLAXMI SADHO	INDIAN NATIONAL CONGRESS
184-KASRAWAD	SACHIN SUBHASHCHANDRA YADAV	INDIAN NATIONAL CONGRESS
185-KHARGONE	RAVI RAMESHCHANDRA JOSHI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
186-BHAGWANPURA (ST)	KEDAR CHIDABHAI DAWAR	INDEPENDENT
187-SENDHAWA (ST)	GYARSILAL RAWAT	INDIAN NATIONAL CONGRESS
188-RAJPUR (ST)	BALA BACHCHAN	INDIAN NATIONAL CONGRESS
189-PANSEMAL (ST)	SUSHRI CHANDRABHAGA KIRADE	INDIAN NATIONAL CONGRESS
190-BADWANI (ST)	PREMSINGH PATEL	BHARATIYA JANATA PARTY
191-ALIRAJPUR (ST)	MUKESH RAWAT (PATEL)	INDIAN NATIONAL CONGRESS
192-JOBAT (ST)	KALAWATI BHURIYA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
193-JHABUA (ST)	GUMANSINGH DAMOR	BHARATIYA JANATA PARTY
194-THANDLA (ST)	BHURIYA VEERSINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
195-PETLAWAD (ST)	MAIDA VALSINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
196-SARDARPUR (ST)	PRATAP GREWAL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
197-GANDHWANI (ST)	UMANG SINGHAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS
198-KUKSHI (ST)	SURENDRA SINGH HONEY BAGHEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS

NO. AND NAME OF ASSEMBLY CONSTITUENCY	NAME OF ELECTED MEMBER (SHRI / SMT. KU.)	PARTY AFFILIATION (IF ANY)
199-MANAWAR (ST)	DR. HIRALAL ALAWA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
200-DHARAMPURI (ST)	PANCHILAL MEDA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
201-DHAR	NEENA VIKRAM VERMA	BHARATIYA JANATA PARTY
202-BADNAWAR	RAJWARDHAN SINGH- PREM SINGH DATTIGAW	INDIAN NATIONAL CONGRESS
203-DEPALPUR	VISHAL JAGDISH PATEL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
204-INDORE-1	SANJAY SHUKLA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
205-INDORE-2	RAMESH MENDOLA	BHARATIYA JANATA PARTY
206-INDORE-3	AKASH KAILASH VIJAYVARGIYA	BHARATIYA JANATA PARTY
207-INDORE-4	MALINI LAKSHMAN SINGH GAUR	BHARATIYA JANATA PARTY
208-INDORE-5	MAHENDRA HARDIA	BHARATIYA JANATA PARTY
209-DR.AMBEDKAR NAGAR - MHOW	USHA THAKUR	BHARATIYA JANATA PARTY
210-RAU	JITU PATWARI	INDIAN NATIONAL CONGRESS
211-SANWER (SC)	TULSIRAM SILAWAT	INDIAN NATIONAL CONGRESS
212-NAGADA - KIIACHIROD	DILIP GURJAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS
213-MAHIDPUR	BAHADURSINGH CHOUHAN	BHARATIYA JANATA PARTY
214-TARANA (SC)	MAHESH PARMAR	INDIAN NATIONAL CONGRESS
215GHATIYA (SC)	RAMLAL MALVIYA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
216-UJJAIN UTTAR	PARAS JAIN	BHARATIYA JANATA PARTY
217-UJJAIN DAKSHIN	DR. MOHAN YADAV	BHARATIYA JANATA PARTY
218-BADNAGAR	MURLI MORWAL	INDIAN NATIONAL CONGRESS
219-RATLAM RURAL (ST)	DILIP KUMAR MAKWANA	BHARATIYA JANATA PARTY
220-RATLAM CITY	CHEYANYA KASYAP	BHARATIYA JANATA PARTY
221-SAILANA (ST)	HARSH VIJAY GEHLOT "GUDDU"	INDIAN NATIONAL CONGRESS
222-JAORA	RAJENDRA PANDEY "RAJU BHAIYA"	BHARATIYA JANATA PARTY
223-ALOT (SC)	MANOJ CHAWLA	INDIAN NATIONAL CONGRESS
224-MANDSOUR	YASHPAL SINGH SISODIYA	BHARATIYA JANATA PARTY
225-MALHARGARH (SC)	JAGDISH DEWDA	BHARATIYA JANATA PARTY
226-SUWASRA	DANG HARDEEP SINGH	INDIAN NATIONAL CONGRESS
227-GAROTH	DEVILAL DHAKAD (ADVOCATE)	BHARATIYA JANATA PARTY
228-MANASA	ANIRUDHA (MADHAV) MAROO	BHARATIYA JANATA PARTY
229-NEEMUCH	DILIP SINGH PARIHAR	BHARATIYA JANATA PARTY
230-JAWAD	OM PRAKASH SAKHLECHA	BHARATIYA JANATA PARTY

By Order,
Sd/-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.